

प्रेषक,

राम बिलास प्रसाद,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सुलतानपुर।

सेवा में,

निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
सुलतानपुर।

द्वारा – माननीय जनपद न्यायाधीश,
सुलतानपुर।

विषय पत्र सं02108 / IV-3478 / एडमिन (1-4) / दिनांकित 13.02.2023 के
सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी उ0 प्र0 न्यायिक सेवा में दिनांक – 17.06.2006 को पूर्वाहन में अपर सिविल जज (जू0 डि0) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था; इसके पूर्व मैंने उ0 प्र0 सचिवालय सेवा में लेखाकार सहकोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त था, जिसका कार्यभार दिनांक 16.06.2006 को अपराहन में नियमानुसार छोड़ा था।

सचिवालय सेवा के दौरान मैंने लखनऊ विकास प्राधिकरण से भूखण्ड सं0 05/114 विराजखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ में 115.5 वर्गमीटर का जरिये लोन क़य किया, जिस पर कालान्तर में पुनः लोन लेकर मकान निर्मित किया जिसमें वर्तमान में मेरा निजी निवास है। यह भी अवगत कराना है कि मेरे द्वारा लिये गये लोन को दिनांक 04.09.2021 चुकता कर दिया गया है, जिसका समय-समय पर विवरण प्रेषित किया जा चुका है।

न्यायिक सेवा में आने से पूर्व दिनांक 16.06.2006 को मेरे बचत खाता सं0-10223069635 में कुल 250.47 रु0 की धनराशि शेष थी तथा यह खाता अब बन्द हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2006-07 में (इस सेवा में आने के पूर्व) नियुक्ति के समय अप्रैल, मई तथा जून जो दिनांक 16.06.2006 तक कार्यरत था, प्राप्त वेतन व कटौतियों के विवरण का उल्लेख किया गया है।

अतः महोदय न्यायिक सेवा में आने से पूर्व मेरे पास अपना मकान 05/114 विराजखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ व सचिवालय बचत खाता सं0-10223069635 जिसमें वेतन आहरित होता था, दिनांक 16.06.2006 को कुल-250.47रु0 शेष था। इसके अलावा मेरे पास कोई सम्पत्ति नहीं थी। महोदय

उक्त सूचना में विलम्ब व्यक्तिगत कठिनाइयों व कार्य की अधिकता व पूर्व सेवा का विवरण प्राप्त होने में विलम्ब के कारण हुई । जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।

सादर,

भवदीय,

दिनांक-26.04.2023

(राम बिष्णु प्रसाद)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सुलतानपुर।